

KNL/SE/2022 -23

4th February, 2023

Online filing at: www.listing.bseindia.com and https://neaps.nseindia.com/NEWLISTINGCORP/login.jsp

To.

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower

Dalal Street

Mumbai - 400 001(M.H.)

BSE Scrip ID: KRITINUT BSE CODE: 533210

To,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400051 (M.H.)

Symbol: KRITINUT

Subject: Newspaper clippings — Press Release of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022

Dear Sir(s)/Ma'am(s),

We are enclosing herewith the copy of newspaper clippings of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2022 published in Chautha Sansar and Business Standard newspapers on Saturday, 4th February, 2023.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, Kriti Nutrients Limited

Raj Kumar Bhawsar Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

अपील नामंजूर

सर्वोच्च न्यायालय ने शरदेन्दु तिवारी की

भोपाल,(निप्र)। सर्वोच्य न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह के विरुद्ध वर्तमान विधायक और २०१३ के साल में भाजपा प्रत्याशी रहे शरदेन्दु तिवारी की चुनाव याचिका अस्वीकार कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य नहीं पाया है। शरदेन्द्र तिवारी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह के खिलाफ 2013 के विधानसभा चनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अजयसिंह का निर्वाचन निरस्त करने का आग्रह किया था। उच्च न्यायालय के न्यायमुर्ति संजय द्विवेदी की कोर्ट ने याचिका कर्तों की ओर से लगाये गये किसी भी आरोप को सही नहीं पाया था। गवाही के दौरान ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया था जिससे अजयसिंह की अनियमितता साबित होती हो। इसके बाद उच्च न्यायालय ने चनाव याचिका निरस्त कर दी थी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ शरदेन्द्र तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। जिसे आज सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य नही पाया और उच्च न्यायालय के

विस चुनाव से पहले पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो,भोपाल इंदौर में तैयारी तेज

निर्णय को बरकरार रखा।

भोपाल (निप्र)। मध्य प्रदेश में २०२४ के लोकसंगा चनाव के पहले भोपाल और डंदौर शहर में मेटो दौडने लगेंगे। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी तैयारी तेज कर दी हैं। यहीं नहीं मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों शहरों में मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रायल रन शुरू करने की समयसीमा तय की गईँ है। इसके बाद सेंट्रल मेट्रो रेल कमिश्नर की तरफ से अनुमति मिलते ही जनता के लिए मेट्रो की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मोपाल में मेट्रो का ३०.९५ किमी और इंदौर में 31.46 किमी ट्रेक प्रस्तावित हैं। इसमें से प्रथम चरण में भोपाल में ७ किमी का प्रायोरिटी कॉरीडोर बनाया जा रहा हैं। दोनों ही शहरों के लिए इस माह के अंत तक जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड टैक की पहली खेप डिलिवर की जाएगी। इसके बाद एल एंड टी भोपाल में और आईएससी एंड टेक्समो इंदौर में पटिरियां डालने का काम शुरू कर देंगी। आल्सटॉम ट्रांसपोर्टे इंडिया लिमिटेड कंपनी को 52 मेट्रो ट्रेन सेट के ऑर्डर दे दिये गए हैं। मेटो रेल कॉरपोरेशन ने सितंबर २०२३ में मेट्रो का ट्रायल रन

आष्टा.(निप्र)। जिस शुभ

घड़ी का जैन समाज ही नहीं परे

शहर को इंतजार था आज वह

समय आ गया शहर की लाडली

दीक्षार्थी बहन का वषीर्दान

वरघोडा शहर के प्रमुख मार्गों से

होता हुआ किला स्थित जैन

मंदिर पहुंचा। वरघोड़ा का शहर

के अनेक स्थानों पर भव्य

स्वागत हुआ।

सीएम शिवराज ने पूछे कमलनाथ से दो सवाल

कांग्रेस करती है झूढे वादे

कमलनाथ ने पलटवार कर कहा- कल सवाल कम पढ गए थे क्या? या हिम्मत जवाब दे गई थी

प्रधानमंत्री पैसा दे रहे थे, तब कमलनाथ जी आप पात्र

किसानों की सुची लटकाते रहे। वे सुची मांगते रहे।

आपका क्या बिगड रहा था जब सभी किसानों के खाते

में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपये

आते? इन्होंने सूची अपूर्ण दी और मांगने पर भी नहीं

दी। हमने आते ही उस सूची को पूर्ण किया और 80

हजार किसान योजना से जुड़ गए। यह कमलनाथ जी

को बताना था कि नाम जोड़े क्यों नहीं गए? आपको

तकलीफ क्या थी? मैं आज एक और सवाल पूछ रहा

हं कि आपने कहा था कि किसानों को उनकी उपज का

भुगतान तीन दिन के अंदर किसान जैसा चाहेगा कर

दिया जाएगा। कमलनाथ जी भगतान तो दर आपने तो

खरीदी तक पूरी नहीं की। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा

हं कि कमलनाथ झठ बोलते है। कांग्रेस झठे वादे

करती है। ताकि सनद रहें कि यह जो बोलते है वो नहीं

भोपाल,(निप्र)। एक दिन बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से दो सवाल पूछे। उन्होंने कहा वे सवाल इसलिए पछ रहा क्योंकि कमलनाथ झठ बोलते हैं। कांग्रेस झुठे वादे करती है। इस पर कमलनाथ ने पलटवार कर कहा, कल सवाल कम पढ़ गए थे क्या? या हिम्मत जवाब दे गई थी।

मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हम मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों के खाते में 4 हजार रुपये की राशि दो किश्तों में डालते हैं। एक संभाग में हम राशि डाल चुके हैं। आज 73 लाख किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए की राशि विदिशा से डाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपये किसानों के खाते में डालते हैं और मख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दो किश्तों चार हजार रुपये हम मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डालते है। यदि 10 हजार रुपये का हिसाब लगाया जाए तो 5 साल में एक किसान के खाते में 50 हजार रुपये सीधे-सीधे पहुंचता हैं। छोटे किसानों के लिए दोनों योजनाएं वरदान हैं।

पात्र किसानों की सूची लटकाते रहे कमलनाथ-सीएम ने कहा वे कमलनाथ जी से पहला प्रश्न यह पुछ रहा हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी विधानसभा

सत्र में लाएंगे आरोप पत्र

पर चर्चा होगी।

अध्यक्ष- वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहने के मद्दे

पर पर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ विधायक जीत पटवारी ने आज कहा

कि उनकी नियक्ति पार्टी के पर्व अध्यक्ष राहल गांधी ने की थी और उन्हें

अभी इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वे इस समय कार्यकारी अध्यक्ष

नहीं है। श्री पटवारी ने यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्षों को राष्ट्रीय स्तर से बनाया गया था। उस समय

राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति नए

भोपाल,(निप्र)। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू

पटवारी विधानसभा के आगामी सत्र में प्रदेश

के 15 मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र

लाएंगे। पटवारी ने यहां संवाददाताओं से

चर्चा के दौरान कहा कि विधानसभा के

आगामी सत्र को लेकर सरकार गुमराह करने

की कोशिश कर रही है। यह कहने को एक

महीने का सत्र है, लेकिन इसमें सिर्फ 13

दिन बैठकें होंगी, उनमें से भी 10 दिन बजट

राहुल ने बनाया था कार्यकारी



किसानों के पास पैसे वापस करने के नोटिस क्यों-कमलनाथ ने श्री चौहान से पूछा कि पीएम सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या सरकार ने जानबुझकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने के लिए यह चाल चली है? क्या इस रकम की रिकवरी किसानों से ना करा कर सरकार अपनी जेब से करेगी।



मुख्यमंत्री ने ८० करोड़ ९७ लाख 21 हजार लागत के निर्माण कार्यो

विदिशा,(निप्र)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शक्रवार को विदिशा की नवीन कषि उपज मंडी मिजापुर में आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम में 80 करोड 97 लाख 21 हजार की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 29 करोड़ 56 लाख 94 हजार की लागत से पर्ण कराए गए आठ निर्माण कार्यो का लोकार्पण किया है जबकि 51 करोड 40 लाख 27 हजार की लागत से पुर्ण कराए जाने वाले दस निर्माण कार्यो का भूमिपुजन भी कार्यक्रम में किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा विदिशा जिले में जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है उनमें 386.40 लाख रुपये की राशि से 100 सीटर उत्कष्ट कन्या छात्रावास भवन निर्माण का लोकार्पण के अलावा 385.37 लाख रुपये की राशि से विदिशा में 100 सीटर उत्कृष्ट बालक छात्रावास भवन निर्माण का लोकार्पण, 563 लाख रुपये की राशि से संयुक्त तहसील

स्थान पर संयक्त तहसील कार्यालय भवन नगरीय तहसील विदिशा का लोकार्पण, 280 लाख रुपए की राशि से रूसा चरण-2 कंपोनेंट-6 के अंतर्गत महाविद्यालयों के उन्नयन कार्य मल्टीपरपज हॉल एवं क्लासरूम का निर्माण कार्य विदिशा (4 क्लासरूम द्वितीय तल पर) का लोकार्पण, 102.37 लाख रूपए की राशि से राज्य मद अंतर्गत सीडब्ल्यूएसएन छात्रावास भवन विदिशा का लोकार्पण, 146.80 लाख रुपए की राशि से विदिशा जिले के अटारीखेजडा में राज्य मद अंतर्गत बालिका छात्रावास भवन का निर्माण का लोकार्पण, 100 लाख रुपए की राशि से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन अटारी खेजड़ा का लोकार्पण तथा 993 लाख रुपए की राशि से शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा विस्तारीकरण. उन्नयन एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य शामिल है।

In The Court of I Civil Judge Class-II, District Court, Indore Presiding Officer: श्रीमती शिखा लोकेश दुवे आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु (RCS A/0001230/2022)

मेसर्स सचिन लिजिंग एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड तर्फे सचिन शर्मा..

Process Id-/2023 पेशी दिनांक: 24.02.2023

1. कमलाबाई सोलंकी पति स्वर्गीय नाथूलालजी सोलंकी पताः 47-बी, राधा नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) . महेश सोलंकी पिता स्वर्गीय नाथूलालजी सोलंकी

पता: 47-बी, राधा नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) अशोक सोलंकी पिता स्वर्गीय नाथूलालजी सोलंकी पता: 47-बी, राधा नगर, जिला इंदौर (म.प्र.

यह कि प्रार्थी मेसर्स सचिन लिजिंग एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड तर्फे सचिन शर्मा ने आपके विरूद्ध सिविल सूट ए के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं य किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सरवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करें, जिन ! आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में . नर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ

के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 19 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्ष से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। श्रीमती शिखा लोकेश दुबे (न्यायाधीश)

इन्दौर (म.प्र.)

का लोकार्पण, शिलान्यास किया कार्यालय भवन शमशाबाद के

नाम परिवर्तन सूचना

मैं KOMAL MANGTANI नेवासी 19 बी, खुशबु विहार, वार्ड नं. 6, मंदसौर (म.प्र.) की होकर आज दिनांक से अपना नाम परिवर्तन कर SIYA MULCHANDANI रख रही हूँ। अतः सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि आज दिनांक से मझे मेरे नये नाम SIYA MULCHANDANI के नाम से जाना व

SIYA MULCHANDANI W/O RAHULMULCHANDANI निवासी 19 बी, खुशबु विहार, वार्ड नं. 6 मंदसौर (म.प्र.)

मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण किया

विदिशा,(निप्र)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नवीन कृषि उपज मंडी मिजापुर में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर भारत सरकार योजना अंतर्गत मोटरसाइकिलों का वितरण दिव्यांग हितग्राहियों को किया है। मुख्यमंत्री जी ने जिन हितग्राहियों को मोटराइज्ड टाई साइकिलों का वितरण किया उनमें जंग बहादर सिंह राजपूत, श्रीमती पार्वती बाई पंथी, अनिल कुमार लोधी, श्री आशीष डिडोत, जगदीश चिढ़ार, मोहर सिंह विश्वकर्मा, कमल मनोज बैरागी, विनोद लाल सिंह अहिरवार, आकाश यादव, गोकुल सिंह

क्रमांक/01/मेला/2023

शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल पर जिन हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया है उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 है। हितग्राहियों को ट्राई साइकिल मिल जाने पर

कार्यालय ग्राम पंचायत खण्डलाई, रामपुरा

जनपद पंचायत कुक्षी जिला धार (म.प्र.)

-: विज्ञप्ति :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बड़केश्वर

महादेव मेला ग्राम पंचायत खण्डलाई एवं रामपुरा (जनपद पंचायत

कुक्षी) के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 16.02.2023 से

22.02.2023 तक महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया

जाना है। मेले में वाहन पार्किंग, विद्युत व्यवस्था, जमीन की टैक्स

वसूली से संबंधित निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक फर्म / ठेकेदार

मांगेलिक भवन बडकेश्वर महादेव मंदिर, खण्डलाई में (शासकीय

अवकाश को छोड़कर) उपस्थित होकर निविदाओं की नियम शर्ते देख

सकते है एवं निविदांए प्रस्तुत कर सकते है। निविदांए प्रस्तुत करने की

अंतिम तिथि 10.02.2023 दोपहर 02 बजे तक रहेगी। बाद म्याद

अहरवार. लखन लाल रजक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को

खण्डलाई दिनांक 2/2/2023

CHOKSI LABORATORIES

धन्यवाद दिया और प्रसन्न मद्रा में

अपनी मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल

स्वयं चला कर घर की ओर

रवाना हुए।

LIMITED CIN: L85195MP1993PLC007471 Regd. Off.: Survey No. 9/1, Near Tulsiyana Industrial Park, Gram Kumedi, Indore-452010 (MP.) Website: www.choksilab.com E-mail: compliance_officer@choksilab.com NOTICE

NOTICE is hereby given that Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of Board of Directors of M/s. CHOKSI LABORATORIES LIMITED has been scheduled to be held on Monday, 13th day of February, 2023, at 03.00 PM at the registered office of the Company at Survey No. 9/1, Near Balaji Tulsiyana Industrial Estate. Gram Kumedi, Indore, MP-452010 (1) inter-alia, to consider, approve and take or record Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 31st December, 2022; (2) inter-alia, to appoint Surabhi Agrawal Practicing Company Secretary as Secretarial Auditor of the Company for the Financial Year 2022-23: along with other agenda item as part of Notice. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, it is hereby notified that "Trading Window" of the Company has been already closed from 1st January, 2023 to 13th February, 2023 (both days inclusive) The aforesaid Notice is also available on the Company Website www.choksilab.com and BSE Website: www.bseindia.com

By order of the Board For Choksi Laboratories Limited Yash Gupta

Place : INDORE

Company Secretary & Compliance Office Date: 03.02.2023

Kriti

CIN No : 1 24132MP1996PLC011245

Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj, Indore-452 007 (M.P.) Phone: 0731-2719100/ 26 E-mail: cs@kritiindia.com; Website: www.kritinutrients.com

Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended on 31st December, 2022

	on a rst Dece	TIDEI, 2022 7 In Lacs (Except Ear		mings Per Share)	
Sr.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Month Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.12.2021	
No.		(Unaudited)	(Unaudited) (Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Total income from operations Sales / Income from Operations	22,263.78	61,959.96	23,990.63	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	989.75	2,018.06	669.20	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	989.75	2,018.06	669.20	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	775.44	1,516.41	504.59	
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) For the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)	778.25	1,517.35	502.37	
6.	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1 each)	501.04	501.04	501.04	
7.	Reserves (excluding Revenue Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year				
8.	Earnings Per Share (of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic : (b) Diluted :	1.55 1.55	3.03 3.03	1.01 1.01	

- 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com) and on company's website (www.kritinutrients.com).
- 2) The above results have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 3rd February, 2023 and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 3rd February, 2023. 3) The Limited Review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)
- Regulations, 2015 has been carried out by the auditors of the company and have expressed an unmodified audit For Kriti Nutrients Ltd.

Shiv Singh Mehta (Chairman & Managing Director)
DIN 00023523

Kriti Industries (India) Ltd. **Kasta**°

CIN No: L25206MP1990PLC005732

Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj, Indore-452 007 (M.P.)

Phone: 0731-2719100/ 26, E-mail: cs1@kritiindia.com, Website: www.kritiindustries.com

Extract of Unaudited Statement of Standalone and Consolidated Financial

	Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2022 ₹ in Lacs (Except Earnings Per Share)						
	STANDALONE CONSOLIDATED						
Sr.	Particulars	Quarter Ended	9 Months Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	9 Months Ended	Quarter Ended
No.	Faiticulais	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
y = 2		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total income from operations Sales / Income from Operations	25,618.95	54,744.34	11,914.49	25,618.95	54,744.34	11,914.49
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	392.62	(3,892.09)	444.26	408.34	(3,847.27)	444.26
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	392.62	(3,892.09)	444.26	408.34	(3,847.27)	444.26
4.	Profit / Loss from Discontinued Operations (Before Tax)				0.28	0.20	(1.13)
	Profit / Loss from Associate (Before Tax)	-			(0.13)	(0.13)	
5.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	450.64	(3,933.28)	406.66	455.18	(3,899.59)	407.66
6.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the Period (After Tax) & Other Comprehensive Income (After Tax)	446.54	(3,945.59)	408.56	451.08	(3,912.03)	409.56
7.	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1 each)	496.04	496.04	496.04	496.04	496.04	496.04
8.	Reserves (excluding Revenue Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.						
9.	Earnings Per Share (of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted :	0.91 0.91	(7.93) (7.93)	0.82 0.82	0.92 0.92	(7.86) (7.86)	0.82 0.82

- 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation nents) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial changes (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com) and on 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requi Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia. company's website (www.kritiindustries.com).
- 2) The above results have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 3rd February, 2023 and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 3rd February, 2023.
- 3) The Limited Review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations

For Kriti Industries (India) Ltd.

(Shiv Singh Mehta) irman & Managing Dir DIN 00023523

Place: INDORE Date: 3rd February, 2023

Place : INDORE Date : 3rd February, 2023

2015 has been completed by the auditors of the company

का स्वागत किया। भव्य मंगल

शुक्रवार को सुबह दीक्षार्थी भजन का वषीर्दान वरघोड़ा शहर प्रवेश एवं दीक्षार्थी बहन वर्षी दान के वीरेंद्र धारीवाल निवास शांति वरघोडा मैं समाज जन शामिल नगर शगुन गार्डन से दादावाड़ी हए। भव्य मंगल प्रवेश एवं ,कन्नौद रोड ,कॉलोनी चौराहा दीक्षार्थी बहन के वषीर्दान का वरघोड परम पज्या साध्वीवर्या ,गल चौराहा, गंज मंदिर गुरुणी पदमलता श्रीजी ,सिकंदर बाजार, बड़ा बाजार, सब्जी मंडी होते हुए किला स्थित म.सा.परम पुज्या साध्वीवर्या जैन मंदिर मालव गिरनार तीर्थ गुरुणी पूर्णलता श्रीजी म.सा. एवं पहुंचा । इस दौरान दीक्षार्थी बहन आष्टा नगर गौरव,धाड़ीवाल का वरघोड़ा का शहर के अनेक परिवार एवं आष्टा के जन जन के स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत र्ह्दय स्थल में विराजित लाड़ली किया गया । गंज मंदिर के पास बेटी परम पूज्या साध्वीवर्या पुखराज मेहता मित्र मंडल ने तत्वरूचि श्रीजी महाराज साहेब स्वागत किया तो वही बड़ा (भावना बहन)आदि साध्वी जी बाजार में कैलाश परमार मित्र भगवंतो की भव्य मंगल प्रवेश मंडल ने भी स्वागत किया इसी आगवानी आष्टा में हुई। बता दें कि इसी उपलक्ष्य में दीक्षार्थी तरह अनेक स्थानों पर जैन समाज ही नहीं जनप्रतिनिधियों बहन कु. आयुषी बसंतजी सहित शहर वासियों ने अनेक छाजेड़ आष्टा एवं दीक्षार्थी बहन स्थानों पर दीक्षार्थी बहन वरघोडा वषीर्दान का वरघोड़ा का लाभ

तीर्थदर्शन योजना का अधिक से अधिक लाभ लेकर अपना सपना करें पूरा – मेवाड़ा

आष्टा,(निप्र)। मध्यप्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वह तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई मख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से इसका लाभ मिलेगा। राज्य के ऐसे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा करने का सपना देख रहे थे, परंतु आर्थिक अभाव के चलते वह सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें सरकार द्वारा तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत निःशुल्क एक तीर्थ की

यात्रा करवाई जाएगी और ऐसे तीर्थयात्री अपना सपना पूरा कर सकेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए नपाध्यक्ष श्रीमती हेमकुंवर मेवाड़ा एवं विधायक प्रतिनिधि रायसिंह मेवाडा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।



भी धाड़ीवाल परिवार के द्वारा लिया गया है प्रवचन एवं साधर्मिक वात्सल्य सुरेशचन्द्र चांदमल धाडीवाल परिवार द्वारा किया गया है।

प्राप्त निविदाए मान्य नही होगी। Kriti Nutrients Ltd.





















Annexure A

M/s Sanjay Traders At Post Shivoor, Taluka Vajjapur, District Aurangabac Proprietor: Mr. Sanjay Ratanchand Chudiwal At Post Shivoor, Taluka Vaijapur, District Aurangabad (Borrower)

NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

At the request made by you, the Bank has granted various credit facilities aggregating to an amount of Rs.15,00,000.00 to M/s Sanjay Traders through its proprietor Mr. Sanjay Ratanchand Chudiwal. We give hereunder details of various credi

facilities granted by us and the outstanding dues thereunder as on the date of this hotice:-					
١	Nature of facility	Sanctioned Limit	Outstanding dues		
	068630110000008 (Cash Credit)	Rs.15,00,000/-	Rs. 15,00,000.00 + UCI w.e.f. 21-09-2022		

- The aforesaid credit facilities granted by the Bank are secured by the following assets/securities (particulars of propertie assets charged to Bank) :-
- Equitable Mortgage of All that part and parcel of the property with building, shed and structures standing thereon situated at Gut No. 1151, Beside Shivkrupa Mangal Karyalay, Near Shivoor Bus Stand, At Post Shivoor Taluka Vaijapur District Aurangabad in the name of Mr. Lalit Ratanchand Chudiwal Bounded by: North:Land of Vijay Jadhay, South: Land of Pushpa Nirmal,

East:Land of Bhagwan Tambe, West: 10 Mtr wide Road

- As you have defaulted in repayment of your dues to the Bank under the said credit facilities, we have classified your account as Non-Performing Asset with effect from 21-09-2022 in accordance with the directions/guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- For the reasons stated above, we hereby give you notice under Section 13(2) of the above noted Act and call upon you to discharge in full your liabilities by paying to the Bank sum of **Rs. 15,00,000.00** with further interest thereon @ **11.90%p.a.** compounded with Monthly rests, and all costs, charges and expenses incurred by the Bank, till repayment by you within a period of 60 days from the date of this notice, failing which please note that we will entirely at your risks as to costs and consequences exercise the powers vested with the Bank under Section 13 of the Securitisation and Reconstruction o Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, against the secured assets mentioned above.
- While we call upon you to discharge your liability as above by payment of the entire dues to the Bank together with applicable interest, all costs, charges and expenses incurred by the Bank till repayment and redeem the secured assets, within the period mentioned above, please take important note that as per section 13(8) of the SARFAESI Act, the right of redemption of secured assets will be available to you only till the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets.
- The amounts realised from exercising the powers mentioned above, will firstly be applied in payment of all costs, charges and expenses which are incurred by us and/or any expenses incidental thereto, and secondly in discharge of the Bank's dues as mentioned above with contractual interest from the date of this notice till the date of actual realisation and the residue of the money, if any, after the Bank's entire dues (including under any of your other dues to the Bank whether as borrower or guarantor) are fully recovered, shall be paid to you. If the said dues are not fully recovered from the proceeds realised in the course of exercise of the said powers against the
- secured assets, we reserve our right to proceed against you and your other assets including by filing legal/recovery actions before Debts Recovery Tribunal/Courts, for recovery of the balance amount due along with all costs etc. incidental thereto 8. Please take note that as per Sub-section (13) of the aforesaid Act, after receipt of this notice, you are restrained from
- transferring or creating any encumbrances on the aforesaid secured assets whether by way of sale, lease, license, gift mortgage or otherwise. The undersigned is a duly authorised officer of the Bank to issue this notice and exercise powers under Section 13 o
- aforesaid Act.
- 10. Needless to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other right or remedy available to the Ban

Place: Nashik Date: 04-02-2023 CC: Mr. Lalitkumar Ratanchand Chudiwal

At Post Shivoor, Taluka Vaijapur,

Re:

(Guarantor)

You are aware that the Bank has granted various credit facilities aggregating to an amount of Rs.15,00,000/- to M/s.Sanjay Traders through its proprietor Mr. Sanjay Ratanchand Chudiwal, for which you stood as guarantor and executed letter of guarantees dated 08-02-2014 guaranteeing the due repayment of the said amount by the Principal Debtor and all interest, cost, charges and expenses due and accruing thereon. The details of various credit facilities granted by the Bank and the amounts outstanding dues thereunder as on the date of notice are as under

and the anneance caretaining accessing	The tire different outstanding does the called a on the date of fletter at a different					
Nature of facility	Sanctioned Limit	Outstanding dues				
068630110000008 (Cash Credit)	Rs.15,00,000/-	Rs. 15,00,000.00 + UCI w.e.f. 21-09-2022				

- As the principal debtor has defaulted in repayment of their liabilities, we have classified theirs dues as Non-Performing Asset on 21-09-2022 in accordance with the directions or guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- As stated herein above, in view of the default committed by the principal debtor, you as the guarantor became liable jointly and severally for the said debt. For the reasons stated above, we invoke your guarantee and hereby call upon you to discharge in full your liabilities by
- paying to the Bank Rs.15,00,000.00 with interest @ 11.90% p.a. compounded with monthly rests within 60 days of receip of this notice failing which we will be constrained to initiate legal action against you including by filing appropriate legal proceedings against you before Debts Recovery Tribunal/Court for recovery of the said amounts with applicable interes from the date of the notice till the date of actual realisation along with all costs, expenses etc. incidental thereto. Yours faithfully

Place: Nashik Date: 04-02-2023

NAME: Uttam Thakare DESIGNATION: Chief Manage AUTHORISED OFFICER.

Yours faithfully,

NAME: Uttam Thakare

AUTHORISED OFFICER

DESIGNATION: Chief Manage

Annexure E

Mr. Lalitkumar Ratanchand Chudiwal At Post Shivoor, Taluka Vaijapur, District Aurangabad

> NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND **ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002**

You are aware that the Bank has granted various credit facilities aggregating to an amount of Rs.15.00.000/- to M/s. Sanjay Traders through its proprietor Mr. Sanjay Ratanchand Chudiwal for which you stood as guarantor and executed letter of guarantee(s) dated 08-02-2014 guaranteeing the due repayment of the said amounts and all interest, cost, charges and expenses due and accruing thereon by the Principal Debtor. The details of various credit facilities granted by the Bank and the outstanding dues thereunder as on the date of this notice are as under

Ι.	•		
	Nature of facility	Sanctioned Limit	Outstanding dues
	068630110000008 (Cash Credit)	Rs.15,00,000/-	Rs. 15,00,000.00 + UCI w.e.f. 21-09-2022

- You are aware that you have undertaken liability under the said letter of GUARANTEE for repayment of various credit facilities granted by us to the said PRINCIPAL DEBTOR and you have secured the repayment of the said credit facilities by
- creating mortgage/charge in favour of the Bank on the following securities / your properties: • Equitable Mortgage of All that part and parcel of the property with building, shed and structures standing thereon situated at Gut No. 1151, Beside Shivkrupa Mangal Karyalay, Near Shivoor Bus Stand, At Post Shivoor Taluka Vaijapur District Aurangabad in the name of Mr. Lalit Ratanchand Chudiwal Bounded by: North: Land of Vijay Jadhay, South: Land of Pushpa Nirmal.
- East:Land of Bhagwan Tambe, West: 10 Mtr wide Road As the principal debtor has defaulted in repayment of theirs liabilities, under the said facilities, we have classified theirs dues as Non-Performing Asset on 21-09-2022 in accordance with the directions or guidelines issued by the Reserve Bank
- We also inform you that in spite of our repeated demands/requests for repayment of the amounts due to Bank, the principal debtor/s has not so far paid the same. You, therefore, as guarantor/s became liable to pay the said dues.
- For the reasons stated above, we hereby give you notice under Section 13(2) of the above noted Act and call upon you to discharge in full your liabilities to the Bank by paying to the Bank sum of Rs.15,00,000/- with further interest @ 11.90% p.a. compounded with monthly rests and all costs, charges and expenses incurred by the Bank till repayment by you, within a period of 60 days from the date of notice, failing which we will entirely at your risks as to costs and consequences exercise all or any of the powers under Section 13 of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
- While we call upon you to discharge your liability as above by payment of the entire dues to the Bank together wit applicable interest and all costs, charges and expenses incurred by the Bank till repayment and redeem the secured assets within the period mentioned above, please take important note that as per section 13(8) of the SARFAESI Act, the right o redemption of secured assets will be available to you only till the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets.

Security Interest Act, 2002, against the secured assets mentioned above.

- The amounts realised from exercising the powers mentioned above, will firstly be applied in payment of all costs, charges and expenses which are incurred by us and/or any expenses incidental thereto, and secondly in discharge of the Bank's dues as mentioned above with contractual interest from the date of this notice till the date of actual realisation and the residue of the money, if any, after the Bank's entire dues (including under any of your other dues to the Bank whether as borrower or guarantor) are fully recovered, shall be paid to you.
- If the said dues are not fully recovered from the proceeds realised in the course of exercise of the said powers against the secured assets, we reserve our right to proceed against you and your other assets including by filing legal/recovery action before Debts Recovery Tribunal/Courts for recovery of the balance amount due along with all costs etc. incidental thereto.
- Please take note as per Sub Section (13) of the aforesaid Act after receipt of this notice, you are restrained from transferring or creating any encumbrances on the aforesaid secured assets whether by way of sale, lease, license, gift, mortgage of
- 10. The undersigned is a duly authorised officer of the Bank to issue this notice and to exercise powers under Section 13 o

11. Needless to mention that this notice is without prejudice to any other right or remedy available to the Bank

Yours faithfully. SD/-NAME: Uttam Thakare

Place: Nashik DESIGNATION: Chief Manage AUTHORISED OFFICER. Date: 04-02-2023 Note: In the event of inconsistency or discrepancy between English version and Marathi version of the Notice the English version shall prevail.

Kriti

Kriti Nutrients Ltd.



Kriti Group

CIN No: L24132MP1996PLC011245 Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj, Indore-452 007 (M.P.) Kriti Phone: 0731-2719100/ 26 E-mail: cs@kritiindia.com; Website: www.kritinutrients.com

Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended on 31st December, 2022 ₹ in Lacs (Except Earnings Per Share)

Sr.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Month Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.12.2021
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total income from operations Sales / Income from Operations	22,263.78	61,959.96	23,990.63
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	989.75	2,018.06	669.20
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	989.75	2,018.06	669.20
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	775.44	1,516.41	504.59
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) For the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)	778.25	1,517.35	502.37
6.	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1 each)	501.04	501.04	501.04
7.	Reserves (excluding Revenue Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year			
8.	Earnings Per Share (of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic : (b) Diluted :	1.55 1.55	3.03 3.03	1.01 1.01

Notes:

- 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com) and on company's website (www.kritinutrients.com).
- 2) The above results have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 3rd February, 2023 and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 3rd February, 2023.
- 3) The Limited Review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the auditors of the company and have expressed an unmodified audit For Kriti Nutrients Ltd.

Place: INDORE Date: 3rd February, 2023

Shiv Singh Mehta (Chairman & Managing Director)
DIN 00023523

ABAN OFFSHORE LIMITED ABAN OFFSHORE LIMITED ABAN OFFSHORE LIMITED ADAM ADA

ST	ATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUA	RTER ENDE) 31 st Decen	IBER 2022
				Rs. Millions
SI. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED 31.12.2022 (UNAUDITED)	YEAR ENDED 31.03.2022 (AUDITED)	QUARTER ENDED 31.12.2021 (UNAUDITED
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	789.42	5,983.40	1,365.77
2	LOSS FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL AND / OR EXTRAORDINARY ITEMS)	(2,815.63)	(21,529.75)	(3,145.17)
3	LOSS FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL AND/OR EXTRAORDINARY ITEMS)	(2,815.63)	(21,529.75)	(3,145.17)
4	NET LOSS FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL AND/OR EXTRAORDINARY ITEMS)	(2,874.06)	(21,770.78)	(3,272.10)
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	(5,793.04)	(26,897.27)	(3,451.24)
6	EQUITY SHARE CAPITAL (FACE VALUE OF RS 2/- EACH FULLY PAID)	116.73	116.73	116.73
7	RESERVES (EXCLUDING REVALUATION RESERVE) AS SHOWN IN THE AUDITED BALANCE SHEET OF THE PREVIOUS YEAR	-	(1,95,241.53)	-
8	EARNING PER SHARE (FACE VALUE OF RS. 2/- EACH) (NOT ANNUALISED) (IN RS.) (a) BASIC	(49.25)	(373.04)	(56.07)
	(b) DILUTED	(49.25)	(373.04)	(56.07)

Notes:

- (i) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.abanoffshore.com.
- (ii) The Company has adopted the Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1. 2016 and these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the said standards.

(iii) The standalone financial results are as under:

()							
SI. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED 31.12.2022 (UNAUDITED)	YEAR ENDED 31.03.2022 (AUDITED)	QUARTER ENDED 31.12.2021 (UNAUDITED)			
1	Income from operations	176.83	820.67	203.11			
2	Profit before tax	(234.27)	(1,003.59)	(161.33)			
3	Total comprehensive income for the period	(248.15)	(1,053.80)	(185.88)			

For and on behalf of the Board Place : Chennai C P Gopalakrishnan Date: 3rd February 2023 Dy. Managing Director & CFO

IndoStar Capital Finance Limited

Registered Office - Unit No. 505, 5th Floor, Wing 2/E, Corporate Avenue, Andheri-Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093.

Branch Office- Unit No. 305, Corporate Avenue, E wing, 3rd Floor, Andheri Ghatkopar Link Road Chakala, Andheri - 400093,

NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

I, the undersigned as the authorized officer of M/s Indostar Capital Finance LTD, hereby give the following notice to the below mentioned Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor (S) who have grossly failed to discharge their legal liability i.e. defaulted in the repayment of the amount i.e. principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Loan (S) Against Property (S)advanced to them by M/s Indostar Capital Finance LTD and as a consequence there-of, the Loan (S) have become Non-Performing Assets (N.P.A's) of the company. Accordingly, Notice (S) dated - 17th January 2023 were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 and rules there-to, on their last Known addresses through India Post on 30THJanuary 2023, however the same have been returned un-served and it is apprehended that the parties mentioned here-in are avoiding the service of the same, as such the Borrower (S) Co-Borrower (S) / Guarantor (S) named bellow are hereby intimated by way of this publication notice to clear their entire outstanding dues for the loan facilities availed and also for which securities have been created by them as detailed under:

Description of

Notice Dispatch Date &

Name of the Borrower / Co-Borrower & Address	the Security	Amount (S) Demanded
1. (Borrower) Mr. Gurvinder Singh Malhotra Flat No 1304, 13th Floor, NRI Complex, Phase 2, Nerul, Navi Mumbai – 400706 (Co-Borrower) 1. Mr. CHATTER SINGH Flat No 1304, 13th Floor, NRI Complex, Phase 2, Nerul, Navi Mumbai – 400706. 2. Mrs. SIMRANJIT KAUR Flat No 1304, 13th Floor, NRI Complex, Phase 2, Nerul, Navi Mumbai – 400706. 3. M/S. GANPATIIMPEX Office No 1403, Plot No 60, Sect-11, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra-400614. Loan No- 1) LSMUM02918-190002830 2) LSMUM13920-210004372 3) LSMUM13921-220005404	1403 on the 14th Floor, in the building known as Mayuresh Chambers Co-op Hsg Soc Ltd, Situated at Plot No 60, Sector 11, Near UCO Bank CBD Belapur, Navi Mumbai	30 [™] January 2023 Loan No -LSMUM02918-190002830 ₹1,02,32,962/- (Rupees One Crore Two Lakhs Thirty Two Thousand Nine Hundred and Sixty Two Only) Loan No -LSMUM13920-210004372 ₹14,95,523/- (Rupees Fourteen Lakhs Ninety Five Thousand Five Hundred & Twenty Three Only) Loan No -LSMUM13921-220005404 ₹9,58,681/- (Rupees Nine Lakhs Fifty Eight Thousand Six Hundred & Eighty One Only)

This step is being taken for substituted service of the un-served notice (S). The above mentioned Borrower (S)/ Co-Borrower (S)/ Guarantor (S) are advised to make the payments of amount demanded above along with future interest and other charges accrued there-on, within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available with Indostar Capital Finance LTD) further steps for taking possession of the Secured Assets/Mortgaged property will be initiated under the provisions of Sec. 13 (4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 and Rules there -to. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties on which Indostar Capital Finance LTD has the first Charge

(Basil Martyres)
Authorised Officer Place - Mumbai Date - 03/02/2023

SANKALP CO-OP.CREDIT SOCIETY LTD.

Add.: 16, Trupti Sadan Housing Soc., 90 Feet Rd., Behind Police Chouki, Kajupada, Kurla, Mumbai - 400072.

FORM "Z"

(Sub-rule [11(d-1)] of rule 107) Possession Notice for Immovable Property

Whereas the undersigned being the Mr. Bansi Laxman Gadhave Recovery officer o the Sankalp Co-Op.Credit Society Ltd. Under the M.C.S.Act 1960 Section 156 & Rule 107(3) of M.C.S. Rule 1961 issued a demand notice dated 12/03/2022 calling upon the judgment debtor.

Mrs. Lilavati J. Chavan/ Laxmikant J. Chavan to repay the amount mentioned in

the notice being Rs. 14,88,915/- (Rupees Fourteen Lakh Eighty Eight Thousand Nine Hundred Fifteen Only) with date of receipt of the said notice and the judgmen debtor having failed to repay the amount the undersigned has issued a notice for attachment dated 29/12/2022 and attached the property described herein below. The judgment debtor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the judgment debtor and the public in general that the undersigned has taker

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under rule 107 [11(d-1)] of the Maharashtra Co-operative Societies Rules 1961 on this 23rd Day of January of the year 2023. The judgment debtor in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the recovery officer Sankalp Co- Op.Credit Society Ltd. for Rs. 14,88,915/-(Rupees Fourteen Lakh Eighty Eight Thousand Nine Hundred Fifteen Only and interest and other charges thereon.

Description of the Immovable Property

All the part and parcel of the property Room No. 29, Trupti Sadan Housing Society, 90 Feet Road, Behind Police Chawki, Kajupada, Kurla (W), Mumbai - 72. owned by Mrs. Lilavati Jagannath Chavan. Boundaries:

East: Suman Gaikwad's Room West: Sneha Sachin Padalekar's Room South : Gali & Kundalik Kamble's Room North: Subhash Narvekar's Room

Date: 23/01/2023 Place : Mumbai

Seal

Special Recovery & Sales Officer Co-op. Societies, Maharashtra State

Sd/-

Mr. Bansi Laxman Gadhave



Bank Of Baroda Ulhasnagar - 5 Saiplaza, Opp. Bhagwan Hospital, Old Bus Depot, Ulhasnagar Sector 5, Mumbai 421005. Email: SAIULH@bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE (For movable Property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12 read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 23.06.2022 Under Section 13 (2) of the said Act calling upon the Borrower M/s P R Plasto, Proprietor Mr. Pawan Ramchandra Kharat and Guarantor Mr. Vasudeo Namdev Mahajan. to repay the amount mentioned in the notice being Rs.43,35,454.72 (Rupees Forty-Three Lakhs, Thirty-Five Four Hundred, fifty-Four Only) as on 20.06.2022 plus unapplied / un-serviced Interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower and others mentioned hereinabove having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower and others mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rule on this **02nd day of February o** the year 2023.

The borrower and the others mentioned hereinabove in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount of Borrower M/s PR Plasto, Proprietor Mr. Pawan Ramchandra Kharat Borrower to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 43,35,454.72 (Rupees Forty-Three Lakhs, Thirty** Five Four Hundred, Fifty-Four Only) as on 20.06.2022 and interest thereon. The borrower's attention is invited to sub-section (8) of Section 13 in respect of time

available to redeem the secured assets. **Description of the movable Property:**

1. Industrial Gala / Unit No. 15 1st Floor, B-, "Ram Girdhar" Industrial Estate (Premises) Cooperative Society Ltd (Society Registration No THA/ULR/JNC(O)/352/91-92),CTS NO 12715,Plot No. 161(Part) Section No. 4B, /ithalwadi Station Road, Opp. Maruti Showroom & Reliance Industrial Estate Ulhasnagar-3, Dist. Thane 421003. 2. Hypothecation of Stock of Finished Goods, Raw Material lying in the unit at Ram

Girdhar Industrial Estate B 1 Gala No. 15 Opp. Hotel achla Palace Vithalwadi Station Road-421003.

Date: 02-02-2023 Place: Ulhasnagar, Thane

(Jinendra Kumar) Authorized Officer (Bank of Baroda)

.Petitioner Company

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL **MUMBAI BENCH** C.P.(CAA)/205/MB/2022

C.A.(CAA)/213/MB/2022

In the matter of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)

In the matter of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and othe relevant provisions of the Companies Act, 2013 In the matter of the composite scheme of merger and arrangement betwee

Presto Tyresoles Retreading Private Limited ("Demerged Company 1") and Tyresoles Retreading (Gujarat) Private Limited ("Demerged Company 2" and Maniunath Tyresoles Treads Private Limited ("Transferor Company 1" and Ecoflex Surfaces Private Limited ("Transferor Company 2") with Tyresoles (India) Private Limited ("Transferee Company" Or "Resulting Company") and their respective shareholders.

Presto Tyresoles Retreading Private Limited [CIN:) U37100MH2011PTC220898], a company incorporated under he Companies Act, 1956 and having its Registered Office situated at Flat No. 1001, Anand Building Chitrakar) Dhurandhar Marg, Khar Mumbai 400052 Tyresoles Retreading (Gujarat) Private Limited [CIN: J37100MH2014PTC253251], a company incorporated under he Companies Act. 2013 and having its Registered Office situated

at 1001, Godambe Appt. CHS Ltd. Anand Building, Chitrakar Ohurandhar Marg, Near Gabana, Khar West Mumbai 400052.)...Petitioner Company Manjunath Tyresoles Treads Private Limited [CIN: U25203MH2013PTC241161], a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its Registered Office situated at 1001, Godambe Appt. CHS Ltd, Anand Building, Chitrakar) Dhurandhar Marg, Nr Gabana, Khar West, Mumbai 400052. ...Petitioner Company ECOFLEX SURFACES PRIVATE LIMITED ICIN J67120MH1977PTC019990], a company incorporated under

he Companies Act, 1956 and having its Registered Office situated at 1001, Godambe Appt, CHS Ltd, Anand Building, Chitrakar .Petitioner Company Dhurandhar Marg, Nr Gabana, Khar West, Mumbai 400052. TYRESOLES (INDIA) PRIVATE LIMITED [CIN:

U25110MH1990PTC059023], a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its Registered Office situated at 1001, Godambe Appt. CHS Ltd, Anand Building, Chitrakar Dhurandhar Marg, Nr Gabana, Khar West, Mumbai, 400052.)...Petitioner Company

A Joint Petition under Section 230 to 232 of the Compar PRESTO TYRESOLES RETREADING PRIVATE LIMITED, the Petitioner Company TYRESOLES RETREADING (GUJARAT) PRIVATE LIMITED, the Petitioner Company 2 MANJUNATH TYRESOLES TREADS PRIVATE LIMITED, the Petitioner Company ECOFLEX SURFACES PRIVATE LIMITED, the Petitioner Company 4 and TYRESOLES INDIA) PRIVATE LIMITED, the Petitioner Company 5 and their respective shareholders hich was admitted by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench "Hon'ble Tribunal") on 20th day of January, 2023. The said petition is fixed for final hearing pefore the Hon'ble Tribunal on 09th day of March 2023. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner's advocates notice of his ntention signed by him or his advocate not later than 2 days before the date fixed for the inal hearing of the Petition. Where such person seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition

NOTICE OF PETITION

will be furnished by the Petitioner's advocates to any person requiring the same of payment of the prescribed charges for the same Dated this 04th day of February, 2023. M/S RAJESH SHAH & CO

FOR RAJESH SHAH & CO.

Advocates for the Petitioner. 16, Oriental Building, 30, Nagindas Master Road, Flora Fountain, Fort, Mumbai – 400 001

Advocates for the Petitioner

₹20-trn agri credit outlay to boost tractor makers, PSBs

After good 6-month run, fertiliser stocks may not see another surge, say experts

Mumbai, 3 February

¬ he ₹20-trillion agricultural-credit support to the farm sector, proposed in the Budget, is expected to generate long-term benefits for farmlinked credit financiers and tractor manufacturers in the long term, along with public sector banks (PSBs), according to analysts.

However, fertiliser players could see limited upside, they added. "Since fertilhave than doubled in the last six months, we do not see building blocks for another upsurge," said A K Prabhakar, head of research, IDBI Capital.

The government, on February 1, proposed to expand the agriculture credit target by 11 per cent year-on-year (YoY) to ₹20 trillion in FY24.


The total fertiliser subsidy, however, was lowered by 22 per cent to ₹1.75 trillion for FY24BE (Budget Estimates) versus ₹2.25 trillion in FY22RE (Revised Estimates). This was, however, increased by 66 per cent from ₹105,200 crore in FY23BE. While fertiliser allocation for urea was down 14.9 per cent, nutrient-based subsidy (NBS) was down 38 per cent from the RE.

'The reduction in subsidies was in line with the expectations of falling commodity prices. This (subsidy reduction) would translate into lower manufacturing cost of fertilisers. If there is a spike in commodity prices, it could impact the rural or semi-urban consumption demand," said Deepak Jasani, head of retail research, HDFC Securities.

Globally, prices of urea tumbled over 60 per cent to \$412 per tonne from \$1,050 which it had touched on April 19, 2022. Di-ammonium phosphate (DAP) declined 36.61 per cent to \$637 per tonne from \$1,005 per tonne (touched on April 1, 2022), according to trading economics.com.

Analysts at IIFL Securities remain 'neutral' on the sector, and do not expect any major impact on fertiliser manufacturers. This subsidy reduction remained in line with estimates.

"Although the cut in allocation looks steep (much steeper for NBS) and would be taken negatively for complex players, the government has been supportive of



the fertiliser industry. It has been revising the allocation throughout the year in the past. Hence, we do not take this negatively for the sector," they wrote in a Budget analysis report.

On the bourses, shares of fertiliser like Coromandel companies International, Deepak Fertilisers, Madras Fertilisers, National Fertilisers, and Zuari Agro Chemicals advanced up to 22.4 per cent so far in FY23.

That apart, since the credit outlay for agriculture was increased to ₹20 trillion and central food grain scheme amounting to ₹2 trillion was extended by another year, analysts expect this extension to aid rural disposable income and bolster agricultural demand.

"We expect this measure to be positive for public sector lenders as it will boost agricultural demand and further

requirement for agricultural credit. PSU banks like State Bank of India (SBI), Bank of Baroda, and Indian Bank 1.9 per cent, during the same period.

are likely to be key beneficiaries," wrote analysts at ICICI Direct Research.

Prabhakar believes that micro or gold finance companies like Muthoot Finance, Mahindra Finance, Chola Investment, and Manappuram Finance could benefit from this step in the long-term.

"The increased farm credit activity could also bolster demand for farm equipment. It could brighten prospects for tractor players like Mahindra and Mahindra (M&M), and Escorts Kubota in the long-term," he added.

In January 2023, M&M's farm equipment business saw total tractor sales climb 28 per cent YoY to 28,926 units. Escorts Kubota's agri-machinery business registered a 16.5 per cent rise in tractor sales to 6,649 units.

So far in FY23, shares of M&M and Escorts Kubota have surged 67.9 per cent, and 18.8 per cent, respectively. In comparison, the BSE Sensex went up

Transfer child's living expenses before new TCS rates kick in

Higher TCS is temporary; you can adjust it against your tax liability or get refund

BINDISHA SARANG & KARTHIK JEROME

Currently, tax collection at source (TCS) is levied at the rate of 5 per cent on remittances above ₹7 lakh under the liberalised remittance scheme (LRS). Union Budget 2023 has proposed to hike the TCS rate from 5 per cent to 20 per cent on all foreign remittances except those meant

health care. Pallav Pradyumn Narang, partner, CNK says, "The ₹7 lakh threshold has been removed for all purposes other than

for education and

MONEY education (loan funded or own) and medical." Money remitted abroad for the purpose of medical treatment and education (other than that funded by an education loan in case of the latter) will continue to attract TCS at 5 per cent if the amount is above ₹7 lakh.

According to Adhil Shetty, chief executive officer, Bankbazaar.com. "The TCS on education loan payable abroad remains at 0.5 per cent for remittances above ₹7 lakh. No TCS is applicable on remittance

below ₹7 lakh."

Living expenses will be affected

Parents often send their own money to help their children meet their living and other ancillary expenses. If they can establish that the money is being sent for education purposes, the amount will be

> taxed at 5 per cent (once it exceeds ₹7 lakh). The problem will primarily arise in establishing to the bank or fintech player that the money is being sent is for the purpose of education.

If the funds transferred are used

to pay tuition fees, it's very clear that it has an educational purpose. Vivek Jalan. partner, Tax Connect Advisory, says, "If the student lives in the hostel of the university, it can be established that the 5 per cent rate should apply."

But students often live in flats outside the campus, and commonly in accommodation sublet by another student based on a verbal agreement. In such cases, establishing the education link will prove difficult.

mentioned in the remittance form, Jalan says, "If a parent fails to establish a link it will go under 'other purpose' and TCS at 20 per cent will apply." Banks and fintech players are likely to imple-

The reason for sending

money abroad has to be

ment the higher TCS rate strictly for fear of being penalised by the tax authorities. "Parents are already facing the brunt of global inflation. Having to pay TCS at 20 per cent on living expenses will add to their burden," says Shetty.

Children are often given forex cards by parents or education loan providers to meet living expenses. Currently there is no clarity on the TCS rate that will apply to money remitted abroad via this route.

What can you do?

After this proposal is implemented, students studying abroad should give preference to university- or college-provided accommodation if the cost-differential is not very high. This proposal will come into force from July 1, 2023. "Prepone the transfer of funds before the change comes into force," says Vishal Dhawan, chief

financial planner, Plan Ahead Wealth Advisers. He concedes that this would create a couple of risks. One. your child would have too much money in his hands which could be misspent. Two, with cyberattacks being common abroad, your child could be exposed to that risk if he has a large amount in his bank account

Lastly, remember that TCS is not a cost. Aditya Chopra, managing partner, Victoriam Legalis-Advocates & Solicitors, says, "TCS is reflected in Form 26AS as a tax credit, which can be claimed against the tax payable while filing the ITR.

Hence, this is only a oneyear issue. "You will be able to offset the amount deducted as TCS against your other tax liabilities. Once you start getting the refund amount, you can recycle it," says Dhawan.

Naveen Chopra, founder, The Chopras, a pan-Indian education consulting company, says, "It's just that you need to adjust to the new financial reality for a limited period. Don't let that deter you from pursuing the foreign education goal which can have a lifechanging impact."

Sebi allows more avenues to increase public float

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Friday introduced two additional methods and streamlined existing ones to allowed to transfer under help listed firms achieve the 25 per cent minimum public is exercising options and shareholding requirement.

The new methods include transfer of shares held by promoters to an exchange-traded fund (ETF) 2 per cent. KHUSHBOO TIWARI

operated by a Sebi-registered mutual fund. However, a maximum of 5 per cent stake in the listed entity will be this route. Another method allotment of shares under employee stock option programmes, where maximum dilution allowed will be

Regulator considers tenure extension for AIFs

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has proposed allowing alternative investment funds (AIFs) pooled investment vehicles used by the wealthy — to carry forward unliquidated investments of a scheme beyond their tenure.

At present, AIFs can extend the tenure of a scheme by two years upon approval from twothirds of investors. After the expi-

ration of the tenure, the AIF has to fully liquidate the scheme within one year. In a consultation paper floated on Friday, Sebi proposed that AIFs and Large Value Funds for Accredited Investors (LVFs) be permitted to close the existing scheme and transfer the unliquidated investments to a new scheme on receiving consent from 75 per cent investors by value. KHUSHBOO TIWARI





To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

f bsindia bsindia business-standard.com ALPA LABORATORIES LIMITED (CIN NO.L85195MP1988PLC004446) Rau, Indore, (M.P.) Phone: +91-731-4294567 Website: www.alpalabs.in

PUBLIC NOTICE OF BOARD MEETING (Pursuant to Regulation 29(1) (a) and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015) Notice is hereby given that a meeting o the Board of Directors of the Compan will be held at 4:00 P.M. on Tuesday the 14th day of February, 2023 at the Registered Office of the company situated at 33/2 A.R. Road, Pindambe Rau, Indore-453446, India, to interalia consider and approve the standalone and consolidated unaudited Financia Result of the company and limited review report for the quarter 31st

The said Notice may be accessed on the company website at http://www.alpalabs.in and may also be accessed on the stock exchange websites at http://www.bseindia.com

For Alpa Laboratories Limited Sd/- Mahendra Singh Chawla

Place: Gwalior(M.P.) & Etawa (U.P.)

Date: 03/02/2023

December, 2022.



Notice is hereby given that w.e.f. 12th May, 2023, Aditya Birla Finance Limited, Chhindwara Branch, shall be relocating its following premises

1st Floor, Shantinath Complex, Near Sony Showroom, 25 Vivekanand Ward. Nagpur Road. Chhindwara. Madhya Pradesh - 480001

Place : Chhindwara

Closing Premises Address

From:

1st Floor, Block No. 54. Plot No. 5/68, 5/76. P.H. No. 22, B. No. 177, Ward No. 46. Jhulelal Ward VIP Road, Chhindwara, Madhya Pradesh - 480 001

To:

For ADITYA BIRLA FINANCE LTD.

DOP: 04th February, 2023

Authorized Signatory

Tata Capital Financial Services Limited

SBFC

SBFC Finance Limited (erstwhile SBFC Finance Private Limited)

Registered Office: - Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ h under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with

the property will be subject to the charge of SBFC Finance Limited.

and Address of Borrowers Description of Property(ies) Possession Notice (Rs.) & Date of Demand Notice & Date of Possession 1. Manish Kumar Jha, & All the piece and parcel of property bearing Flat No 406 | Rs. 1396994/- (Rupees on Fourth Floor admeasuring 667 sq.ft, built up area 0f 2. Shikha, all are having address at 16/C. Thirteen Lakh(s) Ninety Sangam Nagar, Near Shiv Mandir, Indore, Suryansh Shriji constructed on Plot No A-7 situated at Six Thousand Nine MADHYAPRADESH-452002 Shree Ji Velley Gram Bhicholi Mardana, Tehsil and Hundred Ninety Four Demand Notice Date: 11-May-2021 District Indore . MADHYA PRADESH - 452002. Only) as on 8th May 2021 Date of Possession: 2-Feb-2023 Loan No. 20900042281DH(PR00690398) The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

Sd/- (Authorized Officer), Date: 04/02/2023 SBFC Finance Limited.

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

DEMAND NOTICE UNDER Sec 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT O SECURITY INTEREST ACT, 2002. Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financia

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, has issued a Demand Notice as below calling upon the Borrowers/Co-borrowers/Obligors to repay the amount mentioned in the notice together with further interest applicable thereon more particularly mentioned in the respective demand notice within 60 days from the date of the said notice. If the said Borrowers/Co-borrowers/Obligors fails to make payments to Tata Capital Financial Services Ltd. (TCFSL) as aforesaid, then TCFSL shall proceed against the secured asset(s)/Immovable property(ies) under Section 13(4) of the said act and the applicable rules entirely at the risk of the said Borrowers/Co-borrowers/Obligors as to the costs and consequences. The said Borrowers/Co-borrowers/Obligors are barred from transferring the secure asset or creating any interest or rights by way of tenancy or license or any other rights whatsoever, in or over the secured asset, or otherwise dealing with the secured assets in any manner whatsoever to the prejudice of the interest of us, without obtaining our prior written consent and the same is also prohibited under sub-section (13) of section 13 of the said Act. It may also be noted that as per Section 29 of the Act, if any person contravenes or attempts to contravene o abets the contravention of the provisions of this Act or rules made there under, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. The said Borrowers/Co-borrowers/Obligors kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the TCFSL only til the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the TCFSL is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem th

		Any person who intervenes or abets contravention of the provisions of the act or Rules made thereun	der shall be liable for im	prisonment
		provided under the Act.		
Sr.		Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal	Amount of	NPA Date
NO	Account No.	Representative(s)	Demand Notice	
1	TCFCE	1. M/S Ganpati Mining Through Partners House No. A 803, DB City, Sachin Tendulkar Marg, City	Rs. 1,19,63,306/-	01/09/2022
	020500	Center, Gwalior (M.P)- 474011 Also having address at: M/S Ganpati Mining Through Partners Also	(Rupees One Crore	
	001089	Having Address At: - 61-B, Friends Colony, Etawah, Uttar Pradesh- 206001.	Nineteen Lakhs Sixty	
	1529	2. Abadhesh Singh Bhadoriya, 61-B, Friends Colony, Etawah, Uttar Pradesh-206 001.	Three Thousand	
		3. Renu Singh Sengar, GH/DH-12, DRP Line, Ghosipura, Railway Station, Lashkar Grid,	Three Hundred Six	
		Gwalior, Madhya Pradesh-474012	Only) as on date	
	4. M/S Shri Ram Sharma Stone Crusher, A1- New Vivekanand Colony, Balwant Nagar, Thatipur, 21/12/2022			
		Gwalior, MP-474 011	Date of Demand	
		5. Ram Niwas Sharma, 25, New Vivekanand Colony, Balwant Nagar, Thatipur, Gwalior, MP – 474 011	notice 29/12/2022	
De	scription of Se	cured Asset: 1. Crusher / Puzzolana Machinery Fabricators / Puzzolana 250 TPH / Base Unrelated Mac	hine Serial Number -357	7

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Kriti Nutrients Ltd. **Kriti** CIN No: L24132MP1996PLC011245 Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj, Indore-452 007 (M.P.)

3.03

Phone: 0731-2719100/ 26 E-mail: cs@kritiindia.com; Website: www.kritinutrients.com

Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended

on 31st December, 2022 ₹ in Lacs (Except Earnings Per Share Nine Month Ended | Quarter Ended 31.12.2022 31.12.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total income from operations Sales / Income from Operations 22,263.78 61,959.96 23,990.63 Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, exceptional and / or Extraordinary items) 989.75 2.018.06 669.20 Net Profit / (Loss) for the period before tax 989.75 2,018.06 (After exceptional and / or Extraordinary items 669.20 Net Profit / (Loss) for the period after tax (After exceptional and / or Extraordinary items) 775.44 1,516.41 504.59 Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) For the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax) 778.25 1,517.35 502.37 Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1 each) 501.04 501.04 501.04 Reserves (excluding Revenue Reserve) as showr in the audited balance sheet of the previous year Earnings Per Share (of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations)

(b) Diluted

(a) Basic

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com) and on company's website (www.kritinutrients.com).

2) The above results have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 3rd February, 2023 and taker on record by the Board of Directors in its meeting held on 3rd February, 2023

3) The Limited Review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the auditors of the company and have expressed an unmodified audit For Kriti Nutrients Ltd.

Shiv Singh Mehta (Chairman & Managing Director) Place: INDORE Date: 3rd February, 2023 DIN 00023523